



**PAUL MERCHANTS**

**Paul Merchants Ltd.**

CIN : L74900DL1984PLC018679

Corp. Office : PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022

Ph. 0172-5041786, 5025090 Fax : 0172-5041709

Regd. Office : DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,

Najafgarh Road, New Delhi-110015 Ph. : 011-48702000

www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

Corporate Relations Department,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai- 400001

PML/CS/BSE/2016/1052  
Date: September 7<sup>th</sup>, 2016

**SUB: PUBLICATION OF 32<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the copy of the two Newspapers (The Financial Express and Jansatta) in which the notice of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting, E-voting and Book Closure have been published by the Company, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the provisions of Companies Act, 2013.

You are requested to kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED,

  
(HARDAM SINGH)  
COMPANY SECRETARY  
FCS-5046



### Quikr launches film talent discovery platform Dazzlr

fe Bureau

Bengaluru, Sept 1: Quikr, a cross-category classifieds business, on Thursday launched Dazzlr, a talent discovery platform that brings together actors, casting professionals, directors and producers. Available on both Android and iOS, Dazzlr is aimed at organising casting and talent discovery that will address the needs of the film industry in India and beyond.

The platform has been developed by Quikr in partnership with Vivek Bohra, a third generation film maker and renowned casting director, Aadore Mukherjee. It offers tailored solutions to cater to the unique needs of both artists and casting professionals for a variety of entertainment formats such as cinema, television, theatre, advertising, regional and international film production.



**Large Corporate Branch (LCB)**  
781-785, Rayala Towers, 3<sup>rd</sup> Floor, Anna Salai,  
Chennai 600 002 Ph: 044 - 6678 5501 / 14

**PHARMACEUTICAL UNITS in Tiruvallur & Kancheepuram Distts. near Chennai, Tamilnadu are FOR E-AUCTION SALE**  
under SARFAESI Act

**E-AUCTION DATE: 20th SEPTEMBER 2016**

**UNIT No.1**  
Extant of the unit: Pharmaceutical unit for manufacturing of tablets, capsules, liquids and ointments. Factory building established in the land with Ground plus two floors along with plant and machinery.  
**Total area of the factory building is 5,530 sq.mts (approx.)**  
The unit is in working condition and ready to start production.

**UNIT No.2**  
Extant of the unit: Area of land 3 acres. with constructed area as follows:  
**Four Blocks of building with a total area of 12859 sq.mts.**  
External Structures of the above four blocks are complete. The unit was initially planned for commencing production of pharma products. It is ideal for any other type of industry also.

**UNIT No.3**  
Extant of the unit: Pharmaceutical unit with State of Art production, with facilities to produce all the pharmaceutical products under one roof, consisting of Oral Solids, Syrups, ointment and softgels, Ampules & Vials along with in process laboratory and full-fledged analytical laboratory with international standards. The unit was established in 2012. This plant with its facilities and features is well suited for obtaining USFDA Approval.  
**Unit is ready to use. Area of land 3.80 acres.**  
**Area of Building Ground Floor Approx. 10500 Sq.mts, and First Floor Approx. 10500 Sq.mts.**

**Details are available in our bank websites:**  
**www.pnbindia.biz, www.tenders.gov.in, www.pnbindia.in**


**For further details, and inspection of the site, please contact**  
**Mobile Nos.: +91 - 96770 90283, 99400 13868,**  
**Land Line Nos.: 044 - 6678 5501 / 5515**



**Registered Office:** Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032  
Phone No: 011-43010500, 011-43050100; Fax No: 011-43050473  
e-mail address: secretarial@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 10, 2016, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2016.  
The said Notice may also be accessed on the website of the Company ([www.parsvnath.com](http://www.parsvnath.com)), National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)).  
In this connection, as per the Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by insiders ("the Code"), the trading window would remain closed from Friday, September 02, 2016 to Wednesday, September 14, 2016 (both days inclusive).

For Parsvnath Developers Limited  
Sd/-  
(V. Mohan)  
Company Secretary & Compliance Officer  
Membership No. F2084



**Registered office:** 96, Garden Reach Road, Kolkata- 700 023

This advertisement ("Advertisement") is being issued by and on behalf of Mr. Sharad Kumar Khaitan ("Promoter/Acquirer") in respect of the Exit Offer to the equity shareholders of M/s. Rishab Exports Limited ("the Company") pursuant to the Securities and Exchange Board of India's ("SEBI") Circular for companies exclusively listed on de-recognised/non-operational/ exited Stock Exchanges vide its Circular No. CIR/MDR/DSA/05/2015 dated April 17, 2015. The Advertisement should be read in conjunction with the Exit Offer Letter dated August 25, 2016 ("Exit Offer Letter").

**1. STATUS OF THE COMPANY :**  
The equity shares of the Company were listed only on a regional Stock Exchange namely The Delhi Stock Exchange Limited ("DSE") which has been de-recognised by SEBI vide its Order No. WTM/PS/45/MDR/DSA/NOV/2014 dated November 19, 2014.  
Pursuant to the aforesaid SEBI Circular dated April 17, 2015, Mr. Sharad Kumar Khaitan, person belonging to the Promoter Group, vide his letter dated August 05, 2016 had expressed his intention to the Company for offering an exit opportunity to the public shareholders and the same has been taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 11, 2016.

**2. OUTSTANDING EQUITY SHARES :**  
The Promoter/Acquirer hereby provides an exit opportunity to the public shareholders of the Company. Pursuant to this Exit Offer, public shareholders will be able to tender their equity shares in favour of the Promoter/Acquirer at the Exit Price of Rs. 13.71 per equity share at any time from September 06, 2016 to October 05, 2016 (the "Exit Period"), on the terms and subject to the conditions set out in the Exit Offer Letter. The Exit Offer Letter has been dispatched on September 01, 2016 to all the public shareholders whose name appears in the Register of Members of the Company as on August 19, 2016. In the event any public shareholder not receiving or misplacing their Exit Offer Letter, they may obtain a copy by writing to the Compliance Officer, Rishab Exports Limited, 96, Garden Reach Road, Kolkata- 700 023.

**3. PAYMENT OF CONSIDERATION TO THE SHAREHOLDERS :**  
Subject to any regulatory approvals as may be required, payments will be made only to those public shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions laid out in the Exit Offer Letter and the enclosed application form therein. All other terms and conditions set forth in the Exit Offer Letter shall remain unchanged.

All queries may be directed to the Compliance Officer, Rishab Exports Limited, 96, Garden Reach Road, Kolkata- 700 023.  
On behalf of the Acquirer  
Sd/-  
Sharad Kumar Khaitan  
Date: September 02, 2016  
Place: Kolkata



**CORP. OFF: SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh**  
REGD. OFF: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-48702000. Website: [www.paulmerchants.net](http://www.paulmerchants.net)

**NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE**  
NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the shareholders of M/s Paul Merchants Limited will be held on Wednesday, the 28th day of September, 2016 at 12.00 Noon at the Conference Hall No. 2, Jaypee Siddharth, 3, Rajendra Place, New Delhi - 110008, to transact the Business, as set out in the Notice of AGM. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM on 31.08.2016 by permitted mode.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to the members the facility to exercise their right to vote at the 32nd AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by the Central Depository Services Limited (CDSL). The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:-

a. The remote e-voting will commence on 09:00 a.m. (IST) on Sunday, September 25, 2016.

b. The remote e-voting will end on 05:00 p.m. (IST) on Tuesday, September 27, 2016. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after the said date and time and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

c. The voting rights of the members (for voting through remote e-voting or at AGM) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, 21st September, 2016 ("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

d. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login id and sequence number by sending a request to RTA of the Company M/s Alankit Assignments Ltd, 2E21, Jhandewalan Extn. New Delhi-110005 (India) or CDSL. However, if the said shareholder is already registered with CDSL for e-voting, then his existing user id and password can be used for casting the vote. If he has forgotten the password, he can reset his password by using "Forgot User Details/ Password" option available on [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

e. The facility for voting through ballot shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting.

f. A member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or Ballot Form. If a member casts vote by both the modes, the votes cast through remote e-voting shall prevail and Ballot Form shall be treated as invalid.

g. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.


The Notice of the Annual General Meeting along with complete Annual Report of the Company for financial year 2015-16 is displayed at the website of the Company <http://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2016/08/F.Y-2015-16.pdf> and also at the website of CDSL at [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at <http://www.evoting.com/> under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). You may also contact Mr. Hardam Singh, Company Secretary of the Company at [investor.redressal@paulmerchants.net](mailto:investor.redressal@paulmerchants.net) or 0172-5041760 or Fax 0172-5041713.

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22-09-2016 to 28-09-2016 (both days inclusive) for the purpose of 32nd Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors  
Sd/-  
PAUL MERCHANTS LTD  
HARDAM SINGH  
COMPANY SECRETARY, FCS-5046

Date: September 1, 2016  
Place: Chandigarh



**Reg. Office:** Survey Nos. 313, 314, 320 to 323, Nanekarwadi, Chakan, Tal: Khed, Dist. Pune 410501  
Tel: +91 2135 664865/6 | Fax: +91 2135 664864/53 | Website: [www.autolineind.com](http://www.autolineind.com)  
Email: [investorservices@autolineind.com](mailto:investorservices@autolineind.com) | CIN: L34300PN1996PLC104510

**NOTICE**  
NOTICE is hereby given that the 20<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Autoline Industries Limited ("The Company") will be held on Saturday, September 24, 2016, at 2:30 p.m. at Survey Nos. 291 to 295, Nanekarwadi, Chakan, Tal. Khed, Dist. Pune-410501, to transact the businesses as set out in the Notice dated August 12, 2016 ("Notice"). The Notice of AGM and Annual Report 2015-16 have been electronically sent on August 31, 2016 to the E-Mail IDs of the Members that were available/registered with the Depositories/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company and physical copies of the same have been sent to other Members in permitted mode on August 30, 2016. The Notice and 20th Annual Report are available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours and also posted on the website of the Company - [www.autolineind.com](http://www.autolineind.com) and on the website of Central Depository Services (India) limited (CDSL) at [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules thereunder, amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Company is pleased to provide the members with facility to cast their votes on all Resolutions (Ordinary and Special Business) set forth in the Notice using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by CDSL and the business may be transacted through such voting.

The e-voting period commences on Wednesday, September 21, 2016 (9:00 A.M. IST) and ends on Friday, September 23, 2016 (5:00 P.M. IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cutoff date i.e. September 17, 2016, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on a Resolution is cast by a member, he will not be allowed to change it subsequently or cast vote again. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cutoff date, may follow the instructions for e-voting mentioned in the Notice. In case such member has not updated his/her PAN Number with the Company/RTA/ Depository Participant, may obtain Sequence Number by sending a request at [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in).


The facility for voting through Ballot paper shall also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their vote at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

The voting right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on cut off date i.e. Saturday, September 17, 2016.

The Company has appointed Mr. Sunil G. Nanal, Partner M/s. KANJ and Associates, Practicing Company Secretaries, to act as the scrutinizer, to scrutinize the E-voting process. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). For any queries/grievances, in relation to e-voting, members may also contact Mr. Sandip Pawar, Team Member, Link Intime India Pvt. Ltd., Block no. 202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, off Dhule Patil Road, Pune - 411 001, E-mail-id: [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in), Ph: (020) 26160084/ (020)26161629. Members may also write to the Company Secretary of the Company at the e-mail address [investorservices@autolineind.com](mailto:investorservices@autolineind.com) or the registered office address.

By Order of the Board  
For Autoline Industries Limited  
Sd/-  
Ashish Gupta  
Company Secretary

Place: Pune  
Date: September 02, 2016



**Registered Office:** 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.  
**Corporate Office:** One BKC 13<sup>th</sup> Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051.  
Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, website: [www.icicipruamc.com](http://www.icicipruamc.com),  
email id: [enquiry@icicipruamc.com](mailto:enquiry@icicipruamc.com)  
**Central Service Office:** 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

**Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Interval Fund II - Quarterly Interval Plan B and ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 366 Days Plan G (the Schemes)**  
Notice is hereby given to all the investors/unit holders of the Schemes that September 07, 2016\* has been approved as the record date for declaration of the following dividend under the Schemes. Accordingly, dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/ Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

Plans/Options under the Schemes	Rate of dividend (₹ Per unit) (Face value of ₹ 10/- each)#	NAV as on August 31, 2016 (₹ Per unit)
<b>ICICI Prudential Interval Fund II - Quarterly Interval Plan B @</b>		
Dividend	0.1416	10.1416
Direct Plan - Dividend	0.1428	10.1463
Retail Dividend	0.1418	10.1526
Quarterly Dividend Payout	0.1417	10.1417
<b>ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 366 Days Plan G \$</b>		
Dividend	0.0500	11.8656

@The dividend amount payable will be dividend per unit as mentioned above or the distributable surplus to the extent of NAV movement since previous record date, available as on record date.

\$ The dividend payout will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the respective Scheme.

# Subject to deduction of applicable dividend distribution tax.

The Specified Transaction Period (STP) of ICICI Prudential Interval Fund II - Quarterly Interval Plan B (IF II - QIPB) is September 07, 2016 to September 08, 2016. Since the record date for declaring dividend and STP date under IF II - QIPB coincides, the following provision (i) and (ii) will be applicable, for payment of dividend under IF II - QIPB:

(i) In respect of valid purchase/switch-in applications received till 3.00 p.m. on September 07, 2016\* the ex-dividend NAV\*\* of the respective date of receipt of application will be applicable and the investors shall not be eligible for dividend declared, if any, on the record date; and

(ii) In respect of valid redemptions/switch-out requests received till 3.00 p.m. on September 07, 2016\*, the ex-dividend NAV of the respective date of receipt of application will be applicable and the investors will be eligible to receive the dividend.

\*\* In respect of applications for an amount equal to or more than ₹ 2 lakh, the Applicable NAV shall be subject to the provisions of SEBI Circulars No. Cir/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 and No. Cir/IMD/DF/19/2010 dated November 26, 2010, as may be amended from time to time, on uniform cut-off timings for applicability of NAV.

\* or the immediately following Business Day, if that day is a Non-Business Day.

**Suspension of trading of units of the ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 366 Days Plan G**  
The units of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 366 Days Plan G are listed on BSE Limited (BSE). The trading of units of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 69 - 366 Days Plan G stands suspended on BSE from September 02, 2016. For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be September 07, 2016.

**It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the respective Schemes would fall to the extent of dividend payout and statutory levy, if any.**  
Investors are requested to take a note of the above.

**For ICICI Prudential Asset Management Company Limited**  
Place: Mumbai  
Date : September 01, 2016  
No. 005/09/2016  
Sd/-  
Authorised Signatory  
**CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others : 1800 200 6666 • Or, apply online at [www.icicipruamc.com](http://www.icicipruamc.com)**

"BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE".

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**



**Regd. Office:** Plot No. 1A, Sector-16A, Noida-201301(UP)  
Contact No.: 0120-4361000, Fax: 0120-4234881  
Email id: [corporate\\_enpro@voting.com](mailto:corporate_enpro@voting.com)

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES**  
NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting of VAM Holdings Limited will be held on Friday, 30th September, 2016, at 9:30 a.m. at "Sunrise View, C-180, Sector-105, Noida-201301, Uttar Pradesh", to transact the business as set out in the AGM Notice. NOTICE is further given pursuant to the provision of Section 91 of Companies Act, 2013 and rules thereof, the register of members and share transfer Books of company will remain closed from Friday, 23rd September 2016 to Friday, 30th September, 2016 (both days inclusive).

Pursuant to the provision of section 108 of Companies Act, 2013, read with rules made therefore, the company is providing facility to its members holding shares as on 23rd September, 2016 being cut-off date, to exercise their right to vote on business to be transacted at the AGM of the company. The members may cast their vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provision of Companies Act, 2013 and rules thereon are as under:-

1. Date of completion of sending Notice of AGM on 2<sup>nd</sup> September, 2016.
2. The remote e-voting period commences on Tuesday, 27th September, 2016 from 9:00 a.m. and ends on Thursday, 29th September, 2016 at 5:00 p.m.
3. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 29th September, 2016.
4. Any person who becomes the member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd September 2016, can send request to [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or to the Company.
5. The Notice of AGM is also available on the CDSL Website <https://www.cdslindia.com/e-voting/evotinginstanceAndResults.aspx>
6. In case you have any queries or issues regarding e-voting you may refer the frequently asked questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or you may contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Address: 16th Floor, P.J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, email ID: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com), Phone Number: 18002005533.
7. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Scrutinizer's decision on the validity of a ballot form shall be final.

Members who do not have access to remote e-Voting facility, may exercise their vote at the AGM of the Company by submitting the Ballot Form which will be distributed at the AGM.

By order of the Board of Directors  
Sd/-  
Takesh Mathur  
Director  
Place: Noida  
Date: 02.09.2016  
DIN: 00009338



**Registered Office:** 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.  
**Corporate Office:** One BKC 13<sup>th</sup> Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051.  
Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, website: [www.icicipruamc.com](http://www.icicipruamc.com),  
email id: [enquiry@icicipruamc.com](mailto:enquiry@icicipruamc.com)  
**Central Service Office:** 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

**Notice-cum-addendum to Statement of Additional Information (SAI) Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of all the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund)**  
**Change in the provision under existing Systematic Investment Plan Variable Top - Up facility (SIP Variable Top - Up)**  
All the investors of the fund availing the facility under SIP Variable Top - Up feature are hereby requested to select either Top - Up Cap amount or Top - Up Cap month - year. In case of no selection, the SIP Variable Top - Up amount will be capped at a default amount of ₹ 50 Lakhs.


Under the said facility, SIP amount will remain constant from Top - Up Cap date/ amount till the end of SIP Tenure.

The above facility shall be available to the investors with effect from September 13, 2016. Investors are requested to take a note of the above change.

**All the other provisions of the SID/KIM except as specifically modified herein above remain unchanged.**  
**This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID/KIM of the Scheme, as amended from time to time.**

**For ICICI Prudential Asset Management Company Limited**  
Place: Mumbai  
Date : August 31, 2016  
No. 004/09/2016  
Sd/-  
Authorised Signatory  
**CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others : 1800 200 6666 • Or, apply online at [www.icicipruamc.com](http://www.icicipruamc.com)**

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**



**Registered Office:** 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.  
**Corporate Office:** One BKC 13<sup>th</sup> Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051.  
Tel: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, website: [www.icicipruamc.com](http://www.icicipruamc.com),  
email id: [enquiry@icicipruamc.com](mailto:enquiry@icicipruamc.com)  
**Central Service Office:** 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063. Tel: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

**Notice-cum-addendum to Statement of Additional Information (SAI) Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of all the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund)**  
**Change in the provision under existing Systematic Investment Plan Variable Top - Up facility (SIP Variable Top - Up)**  
All the investors of the fund availing the facility under SIP Variable Top - Up feature are hereby requested to select either Top - Up Cap amount or Top - Up Cap month - year. In case of no selection, the SIP Variable Top - Up amount will be capped at a default amount of ₹ 50 Lakhs.

Under the said facility, SIP amount will remain constant from Top - Up Cap date/ amount till the end of SIP Tenure.

The above facility shall be available to the investors with effect from September 13, 2016. Investors are requested to take a note of the above change.

**All the other provisions of the SID/KIM except as specifically modified herein above remain unchanged.**  
**This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID/KIM of the Scheme, as amended from time to time.**

**For ICICI Prudential Asset Management Company Limited**  
Place: Mumbai  
Date : September 01, 2016  
No. 005/09/2016  
Sd/-  
Authorised Signatory  
**CALL MTNL/BSNL: 1800 222 999 • Others : 1800 200 6666 • Or, apply online at [www.icicipruamc.com](http://www.icicipruamc.com)**

"BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE".

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**



# आप विधायक को 18 महीने की जेल

**जनसत्ता संवाददाता**
नई दिल्ली, 1 सितंबर। दिल्ली की एक अदालत ने इस्पात फैक्टरी में एक श्रमिक की लापरवाही से मौत के मामले में फैक्टरी के मालिक आप विधायक पवन कुमार शर्मा को 18 महीने के कारावास की सजा सुनाई।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वॉरेंट सिंह ने उत्तरी दिल्ली की आदर्श नगर सीट से विधायक शर्मा को जेल की सजा सुनाने के साथ उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने बाद में उन्हें जमानत दे दी। विधायक को भादसं की धाराओं 287 (मशीनरी को लेकर लापरवाही वाला आचरण) और 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत दोषी ठहराया गया। संपर्क किए जाने पर शर्मा ने कहा कि वे फैसले को चुनौती देने के लिए



### लापरवाही से मौत का मामला

ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। अभियोजन के मुताबिक, घटना अगस्त 2009 में हुई जब उत्तरपश्चिमी दिल्ली के समयपुर बादली की उनकी इस्पात फैक्ट्री में एक श्रमिक एक मशीन से घायल हो गया। मशीन आपरेटर के रूप में कार्यरत पीड़ित राम कुमार को रोहिणी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोप लगाया था कि राम कुमार सहित श्रमिकों ने फैक्ट्री मालिक शर्मा को दोषपूर्ण मशीन की शिकायत की थी। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनसे नौकरी छोड़ने को कहा। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ समयपुर बादली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

## न्यूनतम मजदूरी पर जंग और केंद्र को घेरा

**जनसत्ता संवाददाता**
नई दिल्ली, 1 सितंबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को नए सिरे से हमला बोलते हुए कहा कि उपराज्यपाल नजीब जंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर न्यूनतम मजदूरी संबंधित आप सरकार के फैसले को स्वीकृति देने में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया, ‘हमारी कैबिनेट ने पिछले महीने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला किया था और इसे एक सप्ताह बाद स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन वे पिछले आठ दिनों से इस फाइल पर बैठे हुए हैं। हमारे श्रम मंत्री (गोपाल राय) ने इस बारे में चर्चा के लिए उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन नहीं मिला’। दिल्ली की आप सरकार ने पिछली 17 अगस्त को दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में करीब 50 फीसद का बढ़ोतरी करके 9,569 रुपए प्रति मासिक से बढ़ाकर 14,055 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया था। ‘श्रमिक संवाद’ को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ‘उनकी सरकार इस मुद्दे पर नहीं झुकेगी। अगर केंद्र इस नियम को लागू करने से हमें रोकता है तो इसे लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता दोगुनी बढ़ जाएगी’।

<div><b>Parsvnath Developers Limited</b></div> <div><span>CIN:L45201DL1990PLC040945</span></div> <div>Registered Office:Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032                      <div> <div> Phone No:011-43010500, 011-43050100; Fax No:011-43050473</div> <div> e-mail address:secretarial@parsvnath.com; Website:www.parsvnath.com</div> </div> </div>	
<b>सूचना</b>	
भारतीय प्रभुति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्ध विनियमन") के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्वारा सृजित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक अगस्तवार, 10 सितंबर, 2016, को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अन्वेषक नितीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।	
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.parsvnath.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.ncedindia.com) और बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।	
इस वित्तवर्ष में इन्साल्ड्रस ड्राट डेडिंग को विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट करने के लिए कम्पनी आवरण संहिता के अनुसार डेडिंग विंडो शुक्रवार, 02 सितंबर, 2016 से बुधवार, 14 सितंबर, 2016 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।	
पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के लिए हस्ता./— (बी. मोहन)	
तिथि: 01.09.2016	उपाध्यक्ष (लौगल) एवम कंपनी सचिव
स्थान: दिल्ली	सदस्यता सं. एफ. 2084

<b>परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]</b>	
<b>कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)</b>	
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिटी बैंक एन.ए. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10 दिर्स., 2013 जारी कर <b>ऋणधारक श्री विक्रम रैना</b> को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 47,82,250/- वापस लौटाने का निर्देश दिया था।	
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 23 अगस्त, 2016 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा कर लिया है। विविध रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31 अगस्त, 2016 को कर. रु. 70,58,562.22/- तथा उस पर ब्याज के लिए सिटी बैंक एन.ए. के चार्ज के अधीन होगा।	
<b>अचल संपत्ति का विवरण</b>	
ग्राम शाहपुर, तहसील एवं जिला गुडगांव (हरियाणा) में स्थित डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स के नाम से विदित आवासीय कॉलोनी में स्थित फेज-II में प्लॉट नं. एन-13/3, माप 250.56 वर्ग मी. (300 वर्ग यार्ड्स)। चौहद्दी: पूर्व: प्लॉट नं. एन-13/4, पश्चिम: प्लॉट नं. एन-13/2, उत्तर: प्लॉट नं. एन-12/3, दक्षिण: सड़क।	
तिथि: 23 अगस्त, 2016	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गुडगांव	सिटी बैंक एन.ए. के लिए

# विजया बैंक

(भारत सरकार का उपकार)

एआरएमबीए, डी.बी. गुप्ता रोड, राम नगर पहाड़गंज,  
नई दिल्ली-110055 | फोन: (011) 23547377

निजी राशि के माध्यम से सम्पत्ति की विक्री हेतु सूचना

सरकारी एक्ट 2002 के तहत अवल सम्पत्ति की "जैसा है जहाँ है आधार

तथा जैसा है जो है आधार" पर विक्री

जनसाधारण को तथा विदेश रुप से कर्जदारों / गारंटियों / बैंकदालताओं को सूचित किया जाता है कि सरकारी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना और सरकारी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत उपायों के अमल के अनुसरण में, निम्नलिखित अवल सम्पत्ति / प्रत्याभूत आस्ति की विक्री मेसर्स क्रिपेटिव होम फेशन प्रा. लि. पंजिकृत कार्यालय- ए-201, वंदना अपार्टमन्ट, मगूर विहार, फेज-I, दिल्ली-91 के एनपीए खातों में बकाया देय राशि की वसूली के लिए निजी राशि द्वारा की जाएगी। इस संकथ में मेसर्स जीजीया इंडिया (एक्सपोर्ट एण्ड मेन्यूक्चरर्स ऑफ रेडिमेट गार्मेन्ट्स आदी) एक इच्छुक क्रेता ने अधोहस्ताक्षरी (सरकारी एक्ट 2002 के तहत प्रतिक्रिया अधिकारी) से सम्पर्क किया है जिसके द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति कुल राशि 3.56 करोड़ के भुगतान पर क्रय करने का प्रस्ताव दिया गया है। इच्छुक क्रेता द्वारा दिया गया प्रस्ताव समुचित प्रसित होता है तथा उक्त सम्पत्ति के लिए तत्त किये गये सुरक्षित मुख्य के बराबर है।

निम्नलिखित सम्पत्ति के संकथ में कोई हित, प्रथम प्रभार, अधिकार इत्यादि का दावेदार अथवा उपरोक्त नाम क्रेता की सम्पत्ति की प्रस्तावित विक्री के संकथ में कोई आपत्तिधारी व्यक्ति, इस सूचना की तिथि से 30 (तीस) दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी से लिखित रुप सम्पर्क कर सकता है अन्यथा प्रस्तावित विक्री की पुष्टि कर दी जाएगी तथा उपर्युक्तित सम्पत्ति उपरोक्त नामक क्रेता को, आगे कोई सूचना अथवा जानकारी दिए बिना, बेच दी जाएगी।

कर्जदारों का नाम	बकाया राशि	संपत्ति का विवरण
मेसर्स क्रिपेटिव होम फेशन प्रा. लि., पंजिकृत कार्यालय- ए-201, वंदना अपार्टमन्ट, मगूर विहार, फेज-I, दिल्ली-91	दिनांक 30.06.2016 तक रु. 85,31,88,813.53 (रु. पचासी करोड़ इकतीस लाख अठारसी हजार और सौ छठहत्तर आठ सौ छहत्तर शिसका क्षेत्रफल 1117.10 वर्ग मीटर, है।	प्लॉट नंबर 44 ब्लॉक-बी, सेक्टर-58, फेज नंबर 3 नोएडा, जिला नातमंडवनागर, उत्तर प्रदेश पर स्थित फेक्टरी जिसका क्षेत्रफल 1117.10 वर्ग मीटर, है।
<b>गारंटर्स</b>		
1. श्रीमती सोफी जोसेफ पत्नी श्री टी. ओ जोसेफ ए-201, वंदना अपार्टमन्ट, मगूर विहार, फेज-I, दिल्ली-91		
2. श्री टी ओ जोसेफ पुत्र श्री ओ जे थॉमस ए-201, वंदना अपार्टमन्ट, मगूर विहार, फेज-I, दिल्ली-91		
3. श्रीमती एलिजाबेथ थॉमस पत्नी श्री टी ओ थॉमस निवासी: ए-501, विक्टुड, विरानाजी गार्डन, पीबे मुम्बई-40076		
4. श्रीमती गीता एरा आडवाणी पत्नी डॉ. एरा आडवाणी, 201, संवरण बिल्डिंग, माटकोपर इस्ट मुम्बई		
5. मी. वैल कम्यूटर्स एंजिम प्रा. लिमि. ए-201, वंदना अपार्टमन्ट, मगूर विहार, फेज-I, दिल्ली-91		
6. मी. जी कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लिमि. 191, मेडी अपार्टमन्ट, मगूर विहार, फेज-I, दिल्ली-91		

नोट- 30 दिन की निर्धारित अविद्य ख्याति होने के बाद उपरोक्त सम्पत्ति पर किसी अदत्त बकाया इत्यादि संबंधी कोई दावा किसी भी विधिमें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: <b>01.09.2016</b>	प्राधिकृत अधिकारी
	एआरएमबी, दिल्ली

### राजधानी-एक

## पीसीआर टीम ने 70 बच्चों की बचाई जान

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)। दक्षिण दिल्ली में एक पीसीआर टीम की चुस्ती-फुत्ती से गुरुवार को उस समय एक खतरनाक स्थिति टल गई जब टीम ने पुल प्रह्लादपुर में पानी में फंसी स्कूल बस से 70 बच्चों एवं दो शिक्षिकाओं को सुरक्षित निकाला। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पीसीआर) आर के बंसल ने कहा, ‘स्कूल बस में करीब 70 बच्चे और दो शिक्षिकाएं थीं। वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे क्योंकि पानी उनकी बस में घुस गया था। बस खराब हो गई थी। बस के अंदर पानी का स्तर बढ़ रहा था’।

बंसल के अनुसार बुधवार की भारी वर्षा की वजह से सुबह में एमबी रोड पर पुल प्रह्लादपुर अंडरपास में कई फुट पानी जमा हो गया था। उस पानी में फरीदाबाद सेक्टर 46 की इचर स्कूल की बस फंस गई। पुलिस को करीब पौने दस बजे पीसीआर कॉल आई। पीसीआर वैन तत्काल मौके पर भेजी गई। पीसीआर वैन के कर्मी हेडकॉन्स्टेबल मुरारी लाल और एएसआई छोखे लाल ने हिम्मत से काम लिया और उन्हें बचाया। मुरारी लाल ने पानी में उतर कर छोखे लाल की मदद से बच्चों को कंधे पर उठा उठा कर बाहर निकाला।

## प्रेमी ने महिला का गला घोटने की कोशिश कर जान दी

**जनसत्ता संवाददाता**
नई दिल्ली, 1 सितंबर। पूर्वी दिल्ली में गुरुवार को 25 साल के एक व्यक्ति ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की गला घोटकर हत्या करने की कोशिश की और बाद में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर है। मजदूरी करने वाला पत्नीसव अजय पिछले तीन महीने से उससे प्यार करता था। पुलिस के अनुसार महिला के पति ने दोनों से एक-दूसरे से नहीं मिलने एवं आपस में बातचीत नहीं करने को कहा था लेकिन अजय गाजीपुर में उसके घर आता जाता रहा। पुलिस के अनुसार गुरुवार अजय करीब साढ़े ग्यारह बजे महिला के घर आया और वारदात को अंजाम दिया।

# केरी के होटल से ब्लेड के साथ पकड़ा गया व्यक्ति

**जनसत्ता संवाददाता**
नई दिल्ली, 1 सितंबर। दिल्ली के उस होटल में ब्लेड लेकर पहुंचने और सुरक्षार्कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने को लेकर बुधवार रात ‘मानसिक रूप से अस्थिर’ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जहां अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ठहरे हुए थे।

पुलिस के अनुसार पंजाब के गुरुदासपुर के निवासी 53 वर्षीय उदय रात्रा को उस वक्त पकड़ा गया जब वह बुधवार शाम एक पांच सितारा होटल की लॉबी में घूम रहा था और जब सुरक्षार्कर्मियों ने इसका विरोध किया तो पुलिस एवं होटल सुरक्षा कर्मचारियों के साथ उसने झगड़ा किया। वह नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी का बेटा है। रात्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी नौकरशाह के काम में बाधा पहुंचाने के लिए मारपीट करना या बल प्रयोग करना) और 386 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

## वाट्सऐप पोस्ट को लेकर मामला दर्ज

नई दिल्ली, 1 सितंबर (भाषा)। एक वाट्सऐप ग्रुप में कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीरें अपलोड करने के लिए बारहवीं कक्षा की एक छात्रा की शिकायत पर उत्तर पश्चिम दिल्ली में भरत नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रूप नगर इलाके में एक स्कूल में पढ़ने वाली यह लड़की अपने सहपाठियों के एक वाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप के एडमिन एक लड़के ने हाल ही में इस ग्रुप पर कथित रूप से कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की। इस लड़की ने 29 अगस्त को भरत नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।